



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 68) पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश
19 नवम्बर 2013

सं0 बि.ऊ.-02-11/2011-2242—पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया से पथ क्रय केन्द्र आवंटन के संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक 25.10.2013 को सुनवाई की गई।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की स्वीकृति से संबंधित मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा अपने परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में कुल 60 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत कराया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों के मंतव्य को भी सुना गया। इस चीनी मिल के परम्परागत क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। सुनवाई के क्रम में प्रस्तावों की समीक्षा की गयी। किसानों के हित में उनके आवश्यकताओं पर भी गहन विमर्श हुआ एवं उससे संबंधित सभी पक्षों के मंतव्य को सुना गया। इस विषय पर विभागीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय ईख पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में गन्ना किसानों की सुविधा एवं चीनी मिल की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय पदाधिकारियों से प्राप्त मंतव्य के आलोक में ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2012-13 के लिए मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती है।

2. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-26 एवं 27 के साथ बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 की धारा-22,23,24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन करेंगे। यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे। स्थल चयन के क्रम में स्थानीय ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो। ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्र में भी

मिल चलने के पूर्व ईख आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23.04.2013 के अनुसार सम्पन्न हो एवं उसके आधार पर समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण कैलेंडर तैयार कर उसके अनुरूप हो। पर्चियों के आवंटन/वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो। मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची (requisition slip) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती को को संधारित रखा जाए।

4. G.P.S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेंड्रिंग, पर्ची वितरण की व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

5. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक-2108 दिनांक 24.10.2013 के माध्यम से घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी इसका शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

6. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07.2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्यूनतम 5 टन के कम्प्यूटराइज्ड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा। स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा।

7. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय। इसकी भी सूचना समय-समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
ईखायुक्त।

**पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया
को आवंटित पथ क्रय केंद्रों की सूची**

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केंद्र का नाम	राजस्व थाना नं.	GPS द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर कुल रकवा(एकड़ में)	सट्टानीति के आधार पर आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)	
						गेट	सेंटर
		1	मिल गेट— चम्पारण,	398	48000	43.12	24.92
गोपालगंज	बरौली	2	प्रेम नगर	420	926.22	0.42	0.60
	बरौली	3	कहला	250	709.7	0.6	0.18
	बरौली	4	बतरदेह	446	795.76	0.38	0.50
	बरौली	5	देवापुर	430	596.06	0.16	0.50
	बरौली	6	शाहपुर	168	310.28	0.04	0.30
	बैकुंठपुर	7	डी. डी. रोड	339	906.44	0.5	0.50
	बैकुंठपुर	8	डी. डी. बामो	346	1503.78	1.15	0.50
	बैकुंठपुर	9	बहरामपुर	335	787.66	0.47	0.40
	बैकुंठपुर	10	राजापट्टी कोठी	303	724.12	0.3	0.50
	बैकुंठपुर	11	फैजुलाहपुर	326	1036.49	0.44	0.70

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना नं.	GPS द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर कुल रकवा(एकड़ में)	सहानीति के आधार पर आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)	
						गेट	सेंटर
सिवान	जामो	12	जामो खोरीपाकर	482	87726	0.56	0.40
	बसतपुर	13	सुरजपुरा	83	684.41	0.35	0.40
	भगवानपुर	14	हिल्सर	370	324.34	0.06	0.30
सारण	पन्नापुर	15	साहवाजपुर	62	1258.2	0.68	0.70
	मसरख	16	लखनपुर	70	1624.76	0.109	0.70
	पन्नापुर	17	मुहम्मदपुर	155	299.69	0.03	0.30
	मरहौरा	18	अन्दरबाड़ी	264	878.2	0.47	0.50
मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	19	सलेमपुर	05	266.50	-	0.25
		20	गोपीगंज	17	150	-	0.21
	संग्रामपुर	21	बरियारी टोला राजपुर	207	580	0.29	0.35
पूर्वी चम्पारण	चकिया	22	लोकाई बेलवा	90	475.93	-	0.67
	चकिया	23	फुलवरिया	16	343.34	-	0.48
	चकिया	24	खैरी	01	159.91	-	0.22
	चकिया	25	रामगढ़ महुआवा	08	398.76		0.56
	चकिया	26	सीताकुंड	104	269.01		0.38
	चकिया	27	कुड़िया	09	358.96		0.50
	चकिया	28	सिरसिया	100	230.22		0.32
	चकिया	29	दामोदरपुर	111	330.4		0.46
	चकिया	30	कुँवरपुर	7	519.6		0.73
	चकिया	31	विशुनपूरा	112	162		0.23
	चकिया	32	जमुनिया	03			

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना नं.	GPS द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर कुल रकवा(एकड़ में)	सहानीति के आधार पर आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)	
						गेट	सेंटर
	कोटवा	33	मथुरापुर मठ गोपाल	19	345.07		0.48
	कोटवा	34	दिपऊ	25	337.74		0.47
	कोटवा	35	बंगरा	27	726.82		1.02
	कोटवा	36	बेलवा माधो	32	304.40		0.43
	कोटवा	37	जगीराहा	48	180.92		0.26
	कोटवा	38	कंठ छपरा	60	329.9		0.46
	कोटवा	39	सागर चुरामन	31	327.35		0.45
	कोटवा	40	जसौली जमुनियां	27	649.36		0.91
	कोटवा	41	कोटवा	21	455.08		0.64
	कोटवा	42	गोपीछपड़ा	29			
	कोटवा	43	महमदा	22	589.4		0.82
	कोटवा	44	रतनपुर	17	230.32		0.32
	कोटवा	45	भोपतपुर बझिया	42			0.30
	कोटवा	46	पोखरा	26	156		0.22
	केसरिया	47	सेनरापुर (सुन्दरपुर)	228	485.69		0.68
	केसरिया	48	हुसेनी	245	1701.64		2.38
	केसरिया	49	कढ़ान	246	1008.78		1.41
	केसरिया	50	वीजधारी निजामत	229	373.8		0.52
	केसरिया	51	मंगलपुर	245			0.25
छपरा	मशरख	52	जजौली	83	433.32	0.08	0.04
सिवान	महराजगंज	53	माधोपुर	134	296.67	0.08	0.25

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना नं.	GPS द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर कुल रकवा(एकड़ में)	सहानीति के आधार पर आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)	
						गेट	सेंटर
सिवान	दुरौधा	54	रगड़गंज / बंगरा	141	203.08	0.07	0.15
पूर्वी चम्पारण	संग्रामपुर	55	सिकन्दरपुर	196	343.58		0.48
	संग्रामपुर	56	बहुआरा हरवंश	191	421.69		0.59
	संग्रामपुर	57	राजपुर	195	472.4		0.66
	अरेराज	58	बहादुरपुर	101	466.00		0.65
गोपालगंज	वैकुण्ठपुर	59	खोमारीपुर	329	1002.1	0.7	0.4
	कल्याणपुर	60	यमुनापुर	41			
			योग:-		162246.72	7.94	50.80

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 68-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>